



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अक्टूबर, 2022

आश्विन 21, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 3129/9-1-2022-82टी0ए0-22

लखनऊ, 13 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प0आ0-705

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत सुबेहा, जिला बाराबंकी के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जनसामान्य से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 2487/9-1-2022-82टी0ए0-22, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 जारी करके तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 2892/9-1-2022-82टी0ए0-22, दिनांक 27 सितम्बर, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 4692/9-1-01-11टी0(54)/2001, दिनांक 09 अक्टूबर, 2001 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत, आर्थिक महत्व और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये, भारत का संविधान के भाग-नौ क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत सुबेहा, जिला बाराबंकी के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

नगर पंचायत सुबेहा, जिला बाराबंकी के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र

1—मोहिद्दीन सराय	नगर पंचायत सुबेहा के उत्तर की ओर स्थित प्रस्तावित क्षेत्र जिसमें ग्राम मोहिद्दीन सराय की आबादी एवं सुबेहा चकोरा रोड आदि आते हैं। प्रस्तावित क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां सम्मिलित हैं। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खसरा संख्याएं निम्नवत् हैं—85 86, 98, 99, 101, 102, 109, 110, 146, 156, 157, 163, 165, 171, 172, 201, 204, 206, 208, 211, 210, 339, 328, 324, 323, 173, 175, 178, 209, 216, 217, 225, 227, 228, 260, 343, 338, 117, 119, 121, 287, 288, 295, 296, 297, 304, 305, 309, 312, 315, 317, 318, 319.
2—थलवारा	नगर पंचायत सुबेहा के पश्चिम की ओर स्थित प्रस्तावित क्षेत्र जिसमें निंदूरी व टिकुरी की आबादी सम्मिलित है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खसरा संख्याएं निम्नवत् हैं—1414, 1413, 1731, 1725, 1720, 1719, 1718, 1717, 1702, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 1517, 1519, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535, 1536, 1537, 1596, 1729, 1724, 1698, 1696, 1641, 1640, 1627, 1625, 1624, 1622, 1617, 1616, 1615, 1604, 1603, 1597, 1416, 1417, 1419, 1445, 1447, 1448, 1463, 1464, 1500, 1507, 1514, 1515, 1527, 1528.
3—खानपुर	नगर पंचायत सुबेहा के दक्षिण की ओर स्थित प्रस्तावित क्षेत्र, जिसमें हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग हैदरगढ़ सुबेहा नहर सम्मिलित है। प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत खानपुर की आबादी तथा व्यवसायिक गतिविधियां सम्मिलित हैं। प्रस्तावित क्षेत्र की खसरा संख्याएं निम्नवत् हैं—610, 620, 621, 655, 654, 838, 842, 843, 844, 851, 852, 680, 881, 883, 940, 941, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1075, 1076, 785, 784, 783, 742, 740, 734, 733, 728, 715, 716, 958, 983, 984, 985, 1058, 1059, 1060, 1061, 1069, 1070, 1077, 655, 656, 657, 659, 624, 623, 622, 610, 607, 606, 613, 612.
4—पलिया	नगर पंचायत सुबेहा के दक्षिण की ओर स्थित प्रस्तावित क्षेत्र है इसके अंतर्गत ग्राम पलिया की आबादी तथा व्यवसायिक क्षेत्र हैं। सुबेहा शुक्ल बाजार रोड इसमें सम्मिलित है। प्रस्तावित क्षेत्र की खसरा संख्याएं निम्नवत् हैं—1, 5, 6, 7, 8, 85, 91, 92, 94, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 170, 171, 213, 214, 616, 617, 618, 624, 625, 623, 609, 216, 218, 221, 225, 226, 227, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 520, 502, 503, 501, 500, 499, 498, 496, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 697, 683, 684, 686, 687, 688, 693, 832, 819, 818, 816, 811, 808, 807, 806, 799, 798, 797, 796, 776, 775, 774, 773, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 759, 760, 758, 755, 751, 429, 428, 426, 425, 424, 422, 309, 308, 277, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 15, 14, 13, 2.

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3129/IX-1-2022-82 T.A.-22, dated October 13, 2022:

No. 3129/IX-1-2022-82T.A.-22

Dated Lucknow, October 13, 2022

WHEREAS, Government notification no. 2487/IX-1-2022-82T.A.-22 dated September 13, 2022 was issued and published in the *Gazette* with a view to invite objections and suggestions from general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Subeha, District Barabanki as required by sub-section (1) section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916);

AND, WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Government order no. 2892/IX-1-2022-82T.A.-22 dated September 27, 2022.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-Section (2) of Section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial modification of Notification no. 4692/IX-1-01-11T0(54)-2001 dated October 9, 2001 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor having regard to the population of the area, the density of the Population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance and such other factors is pleased to include the areas specified in Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Subeha, district Barabanki for the purposes of Part IX-A of the Constitution of India.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Subeha in District Barabanki

1. Mohiuddin Saray	The proposed Area is situated in North side of Nagar Panchayat Subeha where the Abadi of Mohiuddin Saray and Subeha Chakora road etc. included. Commercial activities included in proposed area. The Gata no. of proposed area below according- 85 86, 98, 99, 101, 102, 109, 110, 146, 156, 157, 163, 165, 171, 172, 201, 204, 206, 208, 211, 210, 339, 328, 324, 323, 173, 175, 178, 209, 216, 217, 225, 227, 228, 260, 343, 338, 117, 119, 121, 287, 288, 295, 296, 297, 304, 305, 309, 312, 315, 317, 318, 319.
2. Thalwara	The proposed Area is situated in Western side of Nagar Panchayat Subeha where the Abadi of Tikuri and Ninduri included. The Gata no. of proposed area below according- 1414, 1413, 1731, 1725, 1720, 1719, 1718, 1717, 1702, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 1517, 1519, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535, 1536, 1537, 1596, 1729, 1724, 1698, 1696, 1641, 1640, 1627, 1625, 1624, 1622, 1617, 1616, 1615, 1604, 1603, 1597, 1416, 1417, 1419, 1445, 1447, 1448, 1463, 1464, 1500, 1507, 1514, 1515, 1527, 1528.
3. Khanpur	The proposed Area is situated in South side of Nagar Panchayat Subeha where Haidargarh Subeha road and Haidargarh Subeha canal included. Commercial activities and aabadi of Khanpur included in proposed area. The Gata no. of proposed area below according- 610, 620, 621, 655, 654, 838, 842, 843, 844, 851, 852, 680, 881, 883, 940, 941, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1075, 1076, 785, 784, 783, 742, 740, 734, 733, 728, 715, 716, 958, 983, 984, 985, 1058, 1059, 1060, 1061, 1069, 1070, 1077, 655, 656, 657, 659, 624, 623, 622, 610, 607, 606, 613, 612.
4. Paliya	The proposed Area is situated in South side of Nagar Panchayat Subeha where The Abadi of Paliya and Commercial activities included in proposed area. The Subeha Shukul Bazaar road included. The Gata no. of proposed area below according- 1, 5, 6, 7, 8, 85, 91, 92, 94, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 170, 171, 213, 214, 616, 617, 618, 624, 625, 623, 609, 216, 218, 221, 225, 226, 227, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 520, 502, 503, 501, 500, 499, 498, 496, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 697, 683, 684, 686, 687, 688, 693, 832, 819, 818, 816, 811, 808, 807, 806, 799, 798, 797, 796, 776, 775, 774, 773, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 759, 760, 758, 755, 751, 429, 428, 426, 425, 424, 422, 309, 308, 277, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 15, 14, 13, 2.

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.